

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

12 अप्रैल 2019

प्रोफेसर नजमा अख्तर ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति का पदभार ग्रहण किया

प्रोफेसर नजमा अख्तर ने आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति का पदभार संभाल लिया। इस मौके पर जामिया के सैंकड़ों शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी प्रशासनिक ब्लॉक में मौजूद थे। इनमें जामिया टीचर्स एसोसिएशन: जीटीए: , जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन: जेएसए: , जामिया स्कूल टीचर्स एसोसिएशन: जेएसटीए: और शफीकुर्रहमान किदवई एसोसिएशन: एसआरके: के पदाधिकारी शामिल थे। जामिया की सारी बिरादरी ने उनका भव्य स्वागत करते हुए उन्हें भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया। पदभार संभालने से पहले उन्होंने कुलपति कार्यालय के बाहर उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए जामिया के लोगों को संबोधित किया।

जामिया के कार्यवाहक कुलपति प्रो शाहिद अशरफ, रजिस्ट्रार ए पी सिद्दीकी: आईपीएस:, विभागों के डीन और प्रमुखों तथा केन्द्रों के निदेशकों, विश्वविद्यालय के अधिकारियों और विभागों के अन्य वरिष्ठ अध्यापकों ने प्रो अख्तर का कुलपति कार्यालय में स्वागत किया। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्होंने जामिया के कुलपति का पदभार संभाल लिया। इस मौके पर प्रो अख्तर ने कहा, “ यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं जामिया बिरादरी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। “

औपचारिक रूप से पदभार संभालने के बाद प्रो अख्तर ने वीसी कार्यालय में मीडिया के लोगों से भी बातचीत की। उनके सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “ शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में जामिया पहले से ही अच्छा काम कर रहा है लेकिन मैं इसे और मज़बूत करने का प्रयास करूंगी। मैं और अधिक नौकरी उन्मुख कोर्स शुरू करने, नवाचार और उद्यमिता प्रशिक्षण में सुधार करने और विश्वविद्यालय के लिए कोष प्रबंध के अतिरिक्त रास्ते तलाशने का प्रयास करूंगी। “

विख्यात शिक्षाविद, प्रो अख्तर जामिया की ही नहीं, बल्कि दिल्ली के किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं। शैक्षिक नेतृत्व के इतिहास में यह अपने आप में एक प्रगतिशील कदम है और जामिया मिल्लिया के लिए गर्व की बात है।

उनके सक्षम नेतृत्व में जामिया सभी क्षेत्रों में विस्तार करेगा और शिक्षा का एक ऐसा सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराएगा जो देश के सभी क्षेत्रों के साथ ही विदेशों से भी प्रतिभाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उनके नेतृत्व में जामिया विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाने में सफल होगा

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक